



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 1984/वैशाख 3, 1906

No. 188]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23, 1984/VAISAKHA 3, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1984

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1984

का. आ. सं. 315 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 16) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेदन देती है कि गणेश फ्लोर मिल्स, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सन्जी मंडी, दिल्ली में स्थित है, के उपक्रम और युक्त कम्पनी के वे अधिकार, हक और हित जो उसके उपक्रमों से संबंधित हैं और जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय मैसर्स हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन लिमिटेड नामक सरकारी कम्पनी में, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 16, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है तारीख 23 अप्रैल, 1984 से निहित हो जाएंगे।

[फा. संख्या 13(53)/80-ए ई आई (1)]

S.O. No. 315(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Ganesh Flour Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1984 (16 of 1984) the Central Government hereby directs that the undertakings of the Ganesh Flour Mills, having their registered Office at Subzimandi, Delhi and the right, title and interest of the said company in relation to its undertakings which have vested in the Central Government under section 3 of the said Act, shall instead of continuing to vest in the Central Government, vest in the Government company known as Messrs. Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited having as registered Office at 16, Nehru Place, New Delhi on and from the 23rd day of April, 1984.

[F. No. 13(53)/80-AEI(T)]

का. आ. सं. 316 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, अमृतसर आयल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1982 (1982 का 50) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अमृतसर आयल वर्क्स, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जी. टी. रोड चेहर्ता, अमृतसर में स्थित है, के उपक्रम और उक्त कम्पनी के वे अधिकार, हक और हित जो इसके उपक्रम से संबंधित हैं और जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में गिहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित को रहने के बजाय मैसर्स हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन लिमिटेड नामक सरकारी कम्पनी में, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 16, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है, तारीख 23, अप्रैल, 1984 से निहित हो जाएंगे।

[मिसिल संख्या 13 (53)/80-ए ई आई (1)]

बी. डी. गोपाला, उप सचिव

S.O. No. 316(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Amritsar oil Workers (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1982 (50 of 1982) the Central Government hereby directs that the undertakings of Amritsar Oil Works, having their registered office at G.T. Road, Cheharta, Amritsar and the right, title and interest of the said company in relation to its undertakings which have vested in the Central Government under section 3 of the said Act shall, instead of continuing to vest in the Central Government, vest in the Government company known as Messrs. Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited having its registered office at 16, Nehru Place, New Delhi on and from the 23rd day of April, 1984.

[F. No. 13(53)/80AEI(I)]

B. D. GOPALA, Dy. Secy.